

प्रेस नोट दिनांक-04-06-2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सरैया श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त कल्लू पुत्र रामखिलावन निवासी सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

20 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी सरैया श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. आरक्षी रोहित यादव

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(क). उ0नि0 श्री शैलेन्दचन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0-198/22 धारा 363/376/506 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त रामप्रकाश सिंह उर्फ छोटे पुत्र शिवशंकर उर्फ सिपाही निवासी ग्राम लोढ़वारा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 शैलेन्द चन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी अनिल यादव

(ख). उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 403/21 धारा 363/366/376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त रजुली उर्फ अवध लाल पुत्र रामप्रसाद निवासी रगौली थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी रोहित यादव

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त चन्दन सिंह पुत्र विनोद सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह निवासी दसईपुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मो0सा0 नं0 UP 73 N 8720 RTR अपाचे चोरी की बरामद की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0- 212/22 धारा- 41/411 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 अदद मो0सा0 नं0 UP 73 N 8720 RTR अपाचे चोरी की

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी प्रवीण कुमार पाण्डेय
3. आरक्षी दिनेश कुमार

(4). दिनांक 04.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, विद्यालय, कोचिंग सेंटर, बस स्टैण्ड इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया।

(5). दिनांक-03.06.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(6). आज दिनांक 04.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों के विवेचकों को पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण उ0प्र0 द्वारा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर के माध्यम से ऑनलाइन रिफ्रेशर विवेचना ट्रेनिंग कार्यशाला। इस ट्रेनिंग में विवेचकों को आधुनिक तरीके से साक्ष्य संकलन के तरीके बताये गये तथा विवेचना निस्तारण हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने हेतु बताया गया।